

Some curbs back; Centre says banks, markets open for Eid



Locked Jamia Masjid, ahead of Eid, in Srinagar on Sunday

EXPRESS NEWS SERVICE  
New Delhi, August 11

WHILE THE CENTRE said it had taken a number of measures to bring back “normalcy” in Jammu and Kashmir (J&K) on the eve of Eid on Sunday, reports from the Valleys said some restrictions had been reimposed.

A Reuters report said a police van was seen driving around a part of Srinagar, announcing that restrictions had been imposed again and asking people to stay indoors. Police checkpoints were also placed on some roads leading to the old quarter of the city, and some streets in central Srinagar.

The report quoted a senior state government official as saying that an assessment of the situation would be made after a video-conference with senior police and administration officials from all the districts in the Valley. “I do not think we will allow large gatherings,” he was quoted as saying.

On Friday, after prohibitory orders were relaxed for the first time since the security lockdown, following the government’s decision to revoke the state’s special status and bifurcate it into two Union Territories, some incidents of stone-pelting were reported.

According to the Reuters report, J&K Director General of Police Dilbag Singh said 1,000-1,500 people were returning from praying at mosques on Friday when “some miscreants” started pelting stones at security officials. “It was a reaction to stone pelting by these miscre-

ants that one or two rounds of pump action gun was fired,” Singh told Reuters, adding that four to five men suffered injuries. Around 300 local leaders had been detained, and some of them had been taken out of Kashmir, he said.

Meanwhile, the Ministry of Home Affairs (MHA) said on Sunday that banks, ATMs and quite a few markets were kept open, “2.5 lakh sheep” were made available, and the district magistrates had made “elaborate arrangements” for Eid. Mobile vans have been deployed for door-to-door delivery of vegetables, LPG cylinders, poultry and eggs, and “six mandies/markets” have been established in Srinagar city, it said.

Treasuries, banks and ATMs have been made functional, replenishment of cash in ATMs has been ensured on regular basis and people are withdrawing money from ATMs as and when required, it said, adding that salaries of all employees and wages of casual labourers too have been released in advance.

Ration ‘ghats’ in every district have started functioning to supply groceries. Of the 3,697 ration ‘ghats’ in Kashmir division, 3,557 have been made operational to provide essentials to the public. Special and elaborate arrangements have been made for the safe return of Hajis from Saudi Arabia, for which flights will commence on August 18. All deputy commissioners have nominated nodal officers to be stationed at the airport from August 18, to facilitate their return to their homes.

Shah: No benefit to country, Kashmir from Article 370

EXPRESS NEWS SERVICE  
Chennai, August 11

UNION HOME MINISTER Amit Shah said Sunday that he had “no confusion” in his mind about the removal of special status under Article 370 in Jammu and Kashmir, which was of “no benefit to the country...or for Kashmir”.

Reiterating his argument in Parliament that the government’s decision will put an end to terrorism in the state, Shah said: “As a legislator there was no confusion in my mind about the decision... I firmly believe there was no benefit to the country from it, or for Kashmir. It should have been removed much

before. As Home Minister, I had no confusion on what will happen after Article 370.” Shah was speaking at an event to mark the release of the book “Listening, Learning & Leading...” on vice president M Venkaiah Naidu’s two-year term in office.

Speaking at the event, Naidu said the abrogation of Article 370 was in “national interest.” “It was the need of the hour, people of the country should stand with Jammu and Kashmir... We should all think in terms of national interest rather than party interest. This should not be treated as a political issue but as a national issue as Kashmir is an integral part of India,” he said.

I-T attaches Delhi bungalow, FDI funds of Kamal Nath’s kin

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, August 11

THE INCOME TAX Department on Sunday said it has attached benami assets worth ₹300-crore bungalow in a posh Delhi locality and \$40 million funds brought from a Mauritius-based entity in connection with its probe against businessman Ratul Puri, nephew of Madhya Pradesh chief minister Kamal Nath, and his father.

It said a preliminary order of attachment against Puri’s been issued under section 24(3) of the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988.

The I-T Department, last month, similarly attached ₹254 crore worth of “benami” equity of Puri, which he is stated to have received from a suspect in the AgustaWestland VVIP chopper scam case via shell companies.

Puri, chairman of Hindustan Powerprojects (HPP), is also being probed by the Enforcement Directorate in the ₹3,600-crore VVIP chopper probe case.

The attached bungalow, in the heart of the Lutyens Zone, is located at 27A, APJ Abdul Kalam Road (formerly Aurangzeb Road).

Railways cancels Samjhauta Express on Indian side of border after Pak’s suspension

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, August 11

THE INDIAN RAILWAYS announced on Sunday that it has cancelled the Samjhauta Express train run at its end of the international border, days

after Pakistan suspended services on its side.

The railways run the train on Sundays from Delhi to Attari and back, while Pakistan used to run the train between Lahore and Attari. Passengers used to change trains at the

Attari station.

“In consequence to Pakistan’s decision to cancel samjhauta exp 14607/14608 running between Lahore and Attari... the link exp train number 14001/14002 running

between Delhi and Attari) also stands cancelled (sic),” said Deepak Kumar, chief public relations officer of Northern Railway.

Two passengers had booked tickets for the Sunday’s service, the official said.

**INTEGRAL COACH FACTORY**

**Tender Notice No.ICF/EL/Cons/2019-20 dt: 12.08.2019**

For and on behalf of The President of India, The Dy. Chief Electrical Engineer / Construction / Shell, Integral Coach Factory, invites sealed Tender for the following work.

1.	Tender No.	EL-AMC-2019-20-28
2.	Name of the Work	Annual Maintenance Contract of Heavy Duty Roof Extractor Fans installed at various locations at Shell division, for a period of Three Years
3.	Approx. Value in Lakhs (₹)	13.15
4.	Earnest Money Deposit (₹)	26,300/-
5.	Tender Closing Date and Time	12.09.2019
6.	Tender Document Cost (₹)	2,000/-

Website for submission of offer: [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in)

**GREEN ICF ! CLEAN ICF !**

**BOI**  
Bank of India

**KRISHNA NAGAR BRANCH**  
A 1/11 Krishna Nagar, Delhi-110051

**POSSESSION NOTICE**

Under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Whereas the undersigned being the Authorized officer of **BANK OF INDIA** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 (Ord. 3 of 2002) and in exercise of power conferred under section 13(4) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated **07-06-2019** calling upon **Sh. Rahul Chaudhary, Sh. Prakash Chaudhary, Smt Monika Chaudhary & Smt. Priya Singh all resident of SJ-81, Shastri Nagar, GHAZIABAD** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 62,58,543.51 (Rs. Sixty Two Lacs Fifty Eight Thousand Five Hundred Forty Three and Paise Fifty One )** as on **31-05-2019** with further interest, expenses and other charges etc. thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower / Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower / Guarantor and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sec. 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this **8th day of August of the year 2019**.

The borrower / Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the Property and any dealing with the Property will be subject to the charge of the **Bank of India, Krishna Nagar Branch** for an amount **Rs. 62,58,543.51 (Rs. Sixty Two Lacs Fifty Eight Thousand Five Hundred Forty Three and Paise Fifty One )** as on **31-05-2019** with further interest, expenses and other charges etc. thereon

Description of the Immoveable Property	
Equitable Mortgaged of Property Situated at Plot No SJ-81, Shastri Nagar Ghazabad the name of Smt. Saroj Devi under the provisions of SARFAESI Act, 2002.	

Date : 08-08-2019, Place: New Delhi      Authorised Officer, Bank of India

**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
**Central Bank of India**

1911 से आपके लिए "सेंट्रल" TO YOU SINCE 1911  
BRANCH OFFICE: 11/2, FIRST FLOOR, SOUTH EXTENSION, PARK II, NEW DELHI-110049

**POSSESSION NOTICE (For Immoveable Property)**  
**Appendix -IV [See Rule – 8(1)]**

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the **CENTRAL BANK OF INDIA, South Extension Part-II, New Delhi Branch**, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice on **07.02.2019**, calling upon the **BORROWER: M/s. S. A. TRADERS, Prop. Md. Shadab Ansari and Guarantors Smt. Hamida Begum**, to repay the amount mentioned in notice being **Rs.39,51,157/- (Rupees Thirty Nine Lakh Fifty One Thousand One Hundred Fifty Seven Only)** as on **07.02.2019** within 60 days from the date of receipt of the said notice with future interest and incidental charges w.e.f. 07.02.2019. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken **Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with **rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002** on this **07.08.2019**. The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of **Central Bank of India, South Extension Part-II, New Delhi Branch** for an amount of **Rs.39,51,157/- (Rupees Thirty Nine Lakh Fifty One Thousand One Hundred Fifty Seven Only)** plus future interest and incidental charges incurred by the Bank w.e.f. 07.02.2019.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.


**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**

Industrial Property bearing Plot No.93, area measuring 101 Sq.yards comprised in Khasra No.106 (1-16), 109/2, (35-11), situated at Gali No.1, Indira Complex, Industrial Area, Kheri Road, Mauza Baselwa, Faridabad in the name of **Smt. Hamida Begum W/o. Md. Shadab Ansari. Bounded: East: Plot No.70 West: Gali North: Remaining part of Plot No.93 South: Plot No.94**  
**PLACE: FARIDABAD**  
**DATE: 07/08/2019**  
**Authorised Officer, Central Bank of India**


TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED										
Registered Office : Tinna House No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030										
Website: www.tinna.in, email: investor@tinna.in, Telephone No.:011-49518530 Fax no.:011-26807073										
CIN:L51909DL1987PLC027186										
EXTRACT OF THE UN AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019										
(Rs. in lakhs)										
S. No.	PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED				Year Ended
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended		
		30-Jun-19	31-Mar-19	30-Jun-18	31-Mar-19	30-Jun-19	31-Mar-19	30-Jun-18	31-Mar-19	
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
1	Total income from operations	3,234.00	3,118.55	3,161.37	12,970.99	3,234.00	3,118.55	3,161.37	12,970.99	
2	Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	6.98	270.09	4.28	34.60	18.58	273.39	(18.23)	46.23	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	6.98	270.09	4.28	34.60	18.58	273.39	(18.23)	46.23	
4	Net profit/(loss) for the period after Tax(After Exceptional and / or Extra ordinary Items)	3.70	199.77	3.17	(15.35)	15.30	203.07	(19.34)	(3.72)	
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after Tax)	4.46	187.25	8.31	(13.76)	15.88	190.37	(14.38)	(2.86)	
6	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	
7	Other Equity				6,390.07					6272.23
8	Earning Per Share (Face value of Rs10/- each share) (for continuing and discontinued operation)									
	(a) Basic	0.04	2.33	0.04	(0.18)	0.18	2.37	(0.23)	(0.04)	
	(b) Diluted	0.04	2.33	0.04	(0.18)	0.18	2.37	(0.23)	(0.04)	
Note:-										
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites ie www.bseindia.com and on the company's website www.tinna.in										
2 The above financials results of Tinna Rubber And Infrastructure Limited ('the Company') have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS)- 34 'Intrim Financial Reporting' as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016.										
3 The Statutory Auditors have given a modified opinion on deferment of marketing,promotion and other expenses of Rs.46.92 lakhs. The company is part of circular economy where Old Tyre (Waste) is converted into reusable Crumb Rubber and value added products (Wealth). Company has first time participated in 2018-19 as sponsor in exhibitions in India and abroad to meet reputed customers at one platform and incurred expenses on lab test of product to make it of acceptable standards and other marketing and promotion expenses of these product. Benefits of these expenses would realize in next years as well. Hence company had carried forward Rs.53.62 lakhs as on 31.03.2019 to be amortised in next two years 2019-20 & 2020-21, Out of this Rs.6.70 lakhs has been amortised during the quarter & Rs.46.92 lakhs is carried forward and to be amortised in next 1 year and 3 quarters.										
4 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 10th August, 2019.										
FOR TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED										
Place : New Delhi										
Date : 10th August, 2019										
Sd/- Bhupinder Kumar Sekhri Managing Director										

PNC INFRA TECH LIMITED						
Registered Office: NBCC Plaza, Tower II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector-5, New Delhi-110017						
CIN: L45201DL1999PLC195937, Email: complianceofficer@pncinfra.tech.com, Website: www.pncinfra.tech.com						
EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019						
Rs. in Lakhs (except EPS)						
S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated	
		Quarter Ended (30.06.2019)	Quarter Ended (30.06.2018)	Year Ended (31.03.2019)	Quarter Ended (30.06.2019)	Year Ended (31.03.2019)
		un-audited	un-audited	audited	un-audited	audited
1	Total Income from Operations	1,33,527.22	75,339.37	3,13,991.10	1,59,933.39	3,82,097.39
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	14,467.76	11,738.16	34,404.26	23,508.36	35,897.51
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14,467.76	11,738.16	34,404.26	23,508.36	35,897.51
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10,014.90	10,252.19	32,491.22	17,656.62	35,066.52
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	9,991.21	10,242.09	32,396.45	17,827.14	35,041.73
6	Equity Share Capital	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	2,06,389.02	-	1,97,307.52
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
1. Basic:		3.90	4.00	12.67	6.96	4.58
2. Diluted:						13.70
Notes:						
1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on Stock Exchanges website ( <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> , <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> ) and Company's website ( <a href="http://www.pncinfra.tech.com">www.pncinfra.tech.com</a> ).						
2) The above standalone/consolidated results, reviewed by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors at its meeting held on August 10, 2019.						
For PNC INFRA TECH LTD. Sd/- Chakresh Kumar Jain Managing Director & CFO (DIN : 00086768)						
Place: Agra						
Date: August 10, 2019						

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency) Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016	
RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of the corporate debtor	Boulevard Projects Private Limited
2. Date of incorporation of corporate debtor	7th June, 2010
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Companies Act, 1956, Registrar of Companies, UCT of Delhi & Haryana, New Delhi
4. Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	N70200DL2010PTC203764
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Regd. Office: C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048 Corporate Office: Tech Boulevard Projects Private Limited, Central Block, Plot No. 6, Sector-127, Noida, Uttar Pradesh-201301.
6. Insolvency commencement date of the corporate debtor	8th February, 2019 (Order available on NCLT Site 14.02.2019)
7. Date of invitation of expression of interest	7th May, 2019
8. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	This can be sought by sending the email on <a href="mailto:boulevard.amitagcs@gmail.com">boulevard.amitagcs@gmail.com</a>
9. Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	This can be sought by sending the email on <a href="mailto:boulevard.amitagcs@gmail.com">boulevard.amitagcs@gmail.com</a>
10. Last date for receipt of expression of interest	31st August, 2019 (New Revised) 26th June, 2019 (Revised) 6th June, 2019 (Previous)
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	10th September, 2019 (New Revised) 5th July, 2019 (Revised) 15th June, 2019 (Previous)
12. Last date for submission of objections to provisional list	15th September, 2019 (New Revised) 10th July, 2019 (Revised) 21st June, 2019 (Previous)
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	25th September, 2019 (New Revised) 21st July, 2019 (Revised) 01 July, 2019 (Previous)
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	15th September, 2019 (New Revised) 10th July, 2019 (Revised) 21st June, 2019 (Previous)
15. Evaluator of obtaining request for resolution plan, valuation matrix, information memorandum and further information	Shall be shares in electronic form to all the Prospective Resolution Applicants (PRA) eligible to receive the same under regulation 36B(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Regulation Process for Corporate Persons) Regulations, 2016.
16. Last date for submission of resolution plans	15th October, 2019 (New Revised) 5th August, 2019 (Revised) 20th July, 2019 (Previous)
17. Manner of submitting resolution plans to resolution professional	By Post or by Hand Delivery in sealed envelope to the address of resolution professional i.e. Amit Agrawal, H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi 110092 followed by an email confirmation.
18. Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	25th October, 2019 (New Revised) 10th August, 2019 (Revised) 29th July, 2019 (Previous)
19. Name and registration number of the resolution professional	Amit Agrawal Reg No. - IBB/PA-02/IP-ND0185/2017- 18/10456
20. Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Amit Agrawal, H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi - 110092 Email id- <a href="mailto:amitagcs@gmail.com">amitagcs@gmail.com</a>
21. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Amit Agrawal, H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi - 110092 Email id- <a href="mailto:boulevard.amitagcs@gmail.com">boulevard.amitagcs@gmail.com</a>
22. Further Details are available at or with	The details can be sought by sending a mail to <a href="mailto:boulevard.amitagcs@gmail.com">boulevard.amitagcs@gmail.com</a>
23. Date of publication of Form G	12th August, 2019 (New Revised) 14th June, 2019 (Revised) 7th May, 2019 (Previous)



# INTEGRAL COACH FACTORY



**TENDER NOTICE No.ICF/PCMM/EOT/31/2019 Dated: 09.08.2019**

The following e-tenders are published in the IREPS website. Firms are requested to login to <http://www.ireps.gov.in> and quote against these tenders. Manual quotations will not be entertained for these tenders. Closing and Opening Time for all tenders is 14:15 Hrs.

Sl. No.	Open Tender No.	Tender Title & Qty.	Due on
1	07197008	ALU FLEXIBLE DUCT	13.08.2019
2	02193201	Draw Gear General Arrangement	21.08.2019
3	07192740	O/C Set of Ceiling Sheet Assembly	26.08.2019
4	07192997	HPL Sheet	26.08.2019
5	07190212	Chair for Crew Room	26.08.2019
6	02193262	One Coaches Set of Welding Parts on Side Wall for LSCN Coache.....	26.08.2019



## सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के उपायों पर कर रही काम

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 11 अगस्त।

सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विभिन्न उपायों पर काम कर रही है। सरकार उन बिंदुओं पर गौर कर रही है जो आर्थिक वृद्धि की गति में रुकावट का कारण बन रहे हैं। इसके लिए उत्पादक क्षेत्रों को कोष की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने और सकल वृद्धि को प्रोत्साहन के उपाय किए जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जिस रणनीति पर काम हो रहा है उसमें जीएसटी दरों में कटौती का प्रस्ताव शामिल नहीं है। सरकार का मानना है कि कर दरें पहले से ही पूर्व के मुकाबले कम हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उद्योग मंडलों, बैंकों, विदेशी व घरेलू निवेशकों समेत विभिन्न पक्षों के साथ बैठकों में मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर वित्त मंत्रालय इन उपायों को अंतिम रूप दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में बैंक, एमएसएमई और वाहन समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों में इन क्षेत्रों के लिए समस्या खड़ी कर रहे

## नकदी संकट से जूझ रही बीएसएनएल का कंपनी ग्राहकों से बकाया वसूली पर जोर

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

नकदी संकट से जूझ रही भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपने कंपनी ग्राहकों से बकाए की वसूली के लिए आक्रामक तरीके से कदम उठाने की योजना बनाई है। दूरसंचार कंपनी अगले दो-तीन महीनों में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के बकाए में से बड़ी राशि की वसूली के उम्मीद कर रही है। बीएसएनएल यह कदम ऐसे समय उठा रही है जब कंपनी वित्तीय स्थिति को लेकर खासे दबाव में है। इसके कारण उसने इस साल दूसरी बार कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी की है। बीएसएनएल ने कर्मचारियों का जुलाई का वेतन पांच अगस्त को जारी किया था।

बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा कि हमारा कंपनी

कुछ बिंदुओं को सामने रखा गया है।

वृद्धि को गति देने के लिए अड़चनों को जल्दी ही दूर किया जाएगा। इससे उद्योग जगत की विभिन्न साझा चिंताएं दूर होंगी। उद्योग जगत वृद्धि को गति देने के लिए उनके लिए कर्ज उपलब्धता सुनिश्चित करने, कर्ज लागत में कमी लाने और कुछ नीतियों को सरल बनाने पर जोर देता रहा है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 7 फीसद वृद्धि का लक्ष्य रखा है और पहली तिमाही के आंकड़े इसी दिशा में हैं।

सूत्रों के मुताबिक सरकार जो कदम उठा रही है, उससे बजट में निर्धारित वृद्धि लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल नहीं है। वाहन उद्योग के जीएसटी में कटौती के बारे में सरकार का कहना है कि दरें पिछली कराधान व्यवस्था के मुकाबले कम हैं। ऐसे में कर दर में कटौती की गुंजाइश नहीं है। सरकार ने सामाजिक क्षेत्र की बाध्यताओं को पूरा करने व बुनियादी ढांचा विकास के लिए राज्यस्व लक्ष्य तय किए हैं। दर कारगल, वाहन बिक्री में नरमी जीएसटी दर में कटौती के कारण नहीं बल्कि उद्योगों के चरणबद्ध तरीके से प्रदूषण के नवीनतम स्तर से संबंधित मॉडल पेश करने में प्रतिरोध है।

## मासिक पेंशन योजना के लिए 15 अगस्त तक दो करोड़ किसानों को पंजीकृत करने का लक्ष्य

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

साझा सेवा केंद्र (सीएससी) ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएमकेएमवाई) के तहत 15 अगस्त तक देशभर के दो करोड़ छोटे किसानों का पंजीकरण करने का लक्ष्य रखा है। सीएससी ई-गवर्नेंस सेवा देशभर में 3.5 लाख साझा सेवा केंद्रों का प्रबंधन करती है। पीएमकेएमवाई की शुरुआत राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।

सीएससी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश त्यागी ने रविवार को कहा कि मैंने सभी गांव स्तरीय उद्यमियों, जो भारत के गांवों में दो लाख से अधिक सीएससी

चलाते हैं, हरेक को स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) तक कम से कम सौ छोटे किसानों को पंजीकृत करने को कहा है। हमारे सभी सीएससी स्वतंत्रता दिवस तक कम से कम दो करोड़ किसानों को पंजीकृत करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता दिवस के दिन भी खुले रहेंगे। त्यागी ने कहा कि पंजीयन की प्रक्रिया बेहद आसान है। कोई भी किसान, जो योजना से जुड़ना चाहते हैं, अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक या बैंक खाते की जानकारी के साथ नजदीकी सीएससी जा सकता है। गांव स्तरीय उद्यमी, जो सीएससी का प्रबंधन करते हैं, किसान से सभी संबंधित दस्तावेज लेने के बाद ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया पूरी करेंगे।

कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएमकेएमवाई के तहत पंजीकरण के लिए सीएससी को शामिल किया है। सीएससी

## सात कंपनियों की बाजार हैसियत 87,966 करोड़ रुपए बढ़ी

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

सूचकांक की शीर्ष दस में से सात कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह संयुक्त रूप से 87,966 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। हिंदुस्तान युनिलीवर लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक सर्वाधिक लाभ में रहे।

पिछले सप्ताह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एचडीएफसी, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक और आइसीआइसीआइ बैंक की बाजार हैसियत बढ़ी जबकि आरआइएल, आइटीसी और एसबीआई को इस मामले में नुकसान उठाना पड़ा।

हिंदुस्तान युनिलीवर लिमिटेड का बाजार मूल्यांकन 22,145.92 करोड़ बढ़कर 3,98,290.92 करोड़ रुपए पहुंच गया। एचडीएफसी बैंक की बाजार हैसियत 18,264.93 करोड़ की वृद्धि के साथ 6,23,892.08 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। एचडीएफसी का पूंजीकरण 15,148.15 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ 3,81,619.34 करोड़ रुपए हो गया। टीसीएस की बाजार हैसियत

### नकली उत्पादों से देश को हर साल एक लाख करोड़ का नुकसान

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

विभिन्न क्षेत्रों में नकली उत्पादों से देश को हर साल एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। इसके बारे में पर्याप्त जागरूकता फैलाने, निगरानी करने और इसके खिलाफ समाधान विकसित करने की जरूरत है।

प्रमाणन उद्योग संगठन ‘प्रमाणन समाधान सेवा प्रदाता संघ’ (एएसपीए) ने यह बात कही। इस संगठन के 60 सदस्य हैं। संघ ने ब्रांड, आय और दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए प्रमाणन प्रौद्योगिकी और समाधान अपनाने पर जोर दिया। एएसपीए के अध्यक्ष नकुल पसरीचा ने कहा कि वर्तमान में नकली उत्पादों से देश को हर साल करीब 1.05 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। प्रमाणन समाधान, जागरूकता और निगरानी का सही तरीके से पालन कर अगर नकली उत्पादों पर 50 फीसद भी रोक लगा दी जाए जो देश की हर साल 50,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। नकली उत्पादों का नुकसान झेलने वालों में दवा क्षेत्र प्रमुख है। पसरीचा ने कहा कि सरकार को इस संबंध में पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि नकली दवाइयां आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है।

इलेक्ट्रानिक्स व आइटी मंत्रालय के तहत एक विशेष उद्देश्यीय उपक्रम है। त्यागी ने कहा कि अभिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पंजीकृत किसान को सुचित किया जाएगा और उसका पीएमकेएमवाई पेंशन कार्ड व विशेष पेंशन खाता संख्या तैयार हो जाएगा। पीएमकेएमवाई की घोषणा 2019-20 के बजट में की गई, जिसके तहत योग्य किसानों को 60 साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी।

यह योजना देशभर में लागू की जा रही है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित देशभर में दो हेक्टेयर तक भूमि रखने वाले किसान इस योजना को अपना सकते हैं। योजना को 18 से 40 साल के किसान अपना सकते हैं। यह स्वीच्छिक और भागीदारी वाली योजना है। इसमें किसानों

को उनकी आयु के मुताबिक 55 से लेकर 200 रुपए तक का मासिक योगदान करना होगा। केंद्र सरकार भी उनके लिए बराबर की राशि का भुगतान करेगी। यह राशि उनके पेंशन कोष में जमा होगी और 60 साल की आयु पूरी होने पर उन्हें तीन हजार रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।

किसान की पत्नी भी यदि अलग से पेंशन योजना को अपनाती है और उसमें अलग योगदान करती है तो वह भी तीन हजार रुपए पेंशन पाने की हकदार होगी। सेवानिवृत्ति आयु पूरी होने से पहले यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी योजना को आगे जारी रख सकती है। यदि परिवार योजना को जारी नहीं रखना चाहता है तो किसान द्वारा किए गए कुल योगदान को ब्याज सहित उसकी पत्नी को दे दिया जाएगा।

## शेयर बाजार में बना रहेगा उतार-चढ़ाव

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

शेयर बाजारों की चाल इस सप्ताह वृहत आर्थिक आंकड़े के साथ-साथ सरकार के आर्थिक वृद्धि को गति देने और कर मुठों के समाधान के लिए उठाए जाने वाले कदमों के कारण शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। इस सप्ताह अवकाश के कारण कारोबारी दिवस कम होंगे। शेयर बाजार सोमवार को बकरीद और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंद रहेंगे।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि आने वाले समय में निवेशकों की आर्थिक वृद्धि को गति देने और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के कर मुठों के समाधान के लिए सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों पर नजर होगी। मंगलवार को बाजार पर औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े का असर देखने को मिल सकता है। यह आंकड़ा शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जारी किया गया था। मुख्य रूप से खनन और निर्माण क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन के कारण देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर जून में दो फीसद रही जो चार महीने का न्यूनतम स्तर है।

एक्सिस सिक््योरिटीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण टुकराल ने कहा कि निवेशकों की धारणा से शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन इस बात पर नजर होगी कि सरकार मांग में नरमी से निपटने के लिए क्या कदम उठाएगी। मांग में कमी कत्रीय नरमी का संकेत देती है। सरकार के आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए किए गए उपायों का असर होता है, तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है।

### श्रीनगर में कारोबारियों को 1,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान

श्रीनगर, 11 अगस्त (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधानों को खत्म करने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद लागू की गई पाबंदियों के कारण राज्य के कारोबारियों को करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक सदस्य ने कहा कि प्रशासन की ओर से लागू पाबंदियों के कारण राज्य में जनजीवन ठप है। इससे कश्मीर में करीब 175 करोड़ रुपए रोजाना के हिसाब से कारोबारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाबंदियों के कारण लोग घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से बेकरी और मवेशियों के डीलरों का कारोबार सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।